



छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय

प्रेस विज्ञप्ति

कल्याणपुर, कानपुर

उत्तर प्रदेश-208024

दिनांक: 09-02-2022

विविध कार्यक्रमों के साथ सीएसजेएमयू का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया नई शिक्षा नीति को लागू कर विश्वविद्यालय ने कीर्तिमान स्थापित किया: मुख्य सचिव

नॉलेज इकॉनमी में अग्रणी भूमिका निभाएगा विश्वविद्यालय: प्रो. विनय कुमार पाठक

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आज 57वां स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर में हवन-पूजन के साथ हुई। समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न विभागों द्वारा वृक्षारोपण और यूआईईटी विभाग द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित संगोष्ठी का आयोजन था।

संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय उन सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनका आने वाले समय में सर्वाधिक उपयोग किया जायेगा, फिर वो चाहे नवाचार हो या शोध कार्य। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटलाइजेशन की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बात

अगर भारतीय शिक्षा परंपरा की जाए तो इस क्षेत्र में भारत ने आदिकाल से ही अपना परचम लहराया है। अब हर क्षेत्र में युगांतकारी बदलाव हो रहे हैं और हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिये। नई शिक्षा नीति-2020 पर उन्होंने कहा कि यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का नवाचार है, इसके अंतर्गत छात्र अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

इस मौके पर प्रातः काल विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक एवं आयुर्वेदाचार्य डॉ वंदना पाठक द्वारा हवन-पूजन किया गया।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के स्पेशल कवर को रिलीज किया गया। कार्यक्रम में डॉ. विपिन कुमार द्वारा लिखित छत्रपति शाहू जी महाराज पर आधारित पुस्तक का विमोचन कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक द्वारा किया गया। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा न्यूजलेटर और विश्वविद्यालय के 56 वर्ष की यात्रा पर आधारित डॉक्युमेंट्री की रिलीजिंग कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केन्द्र रही। इसके साथ ही कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया गया।

कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने 57वें स्थापना दिवस पर कहा कि इस विश्वविद्यालय से पूर्व प्रधानमंत्री, कवि, लेखक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई, राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जैसे महान लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। आज के समय में विश्वविद्यालय के सामने क्या चुनौतियां हैं, हम सभी को इसको जानने की जरूरत है। अब जमाना अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी का है और विश्वविद्यालय को भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी है। आने वाला समय डिजिटल हाईवेज और डाटा हाईवेज का होगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को विकसित करे और उसे बढ़ावा दे। हमें नॉलेज इकाॅनमी में नए कोर्स और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति प्रो. अशोक कुमार और पूर्व कुलपति प्रो. प्रो. हर्ष कुमार सहगल ने भी विश्वविद्यालय 57वें स्थापना दिवस पर

शुभकामनाएं देते हुए नये इनोवेशन के बढ़ावा देने की वकालत की। पूर्व छात्र विजय पाण्डेय और पत्रकार डॉ. सुरेश अवस्थी आदि ने भी अपने विचार रखे। इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय से जुड़े सभी शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कानपुर मेट्रो से निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक एवं संचालन प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार यादव ने दिया। इस अवसर पर वित्त अधिकारी पी.एस. चौधरी, परीक्षा नियंत्रक अंजनी कुमार मिश्र, प्रो.संजय स्वर्णकार, डॉ शिवांशु सचान, डॉ शिखर शुक्ला, डॉ. सौरभ त्रिपाठी, डॉ. प्रवीण भाई पटेल, डॉ अरविंद चौहान, डॉ. ऐश्वर्या आर्या, डॉ प्रवीण कटियार आदि लोग मौजूद रहे।आदि लोग मौजूद रहे।

डॉ. विशाल शर्मा

मीडिया प्रभारी

Vishalsharma@csjmu.ac.in